

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद मुरादाबाद



दिनांक:-08-01-2023

1-चोरी की मोटरसाइकिल सहित आरोपी गिरफ्तार, थाना नागफनी-

अवगत कराना है कि दिनांक 15-12-2022 को वादी नफीस अहमद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अजीज निवासी चौराहा बारादरी काठ हाउस दाग नागफनी मुरादाबाद ने चौराहा बारादरी काठ हाउस दाग से अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी किए जाने के संबंध में थाना नागफनी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना नागफनी पर मु0अ0सं0-197/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 08-01-2023 को उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना नागफनी द्वारा मय हमराही पुलिस बल मोहम्मद आकिब पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मकबरा धोबी वाला फाटक के पास थाना कटघर जिला मुरादाबाद को उक्त मुकदमे संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल नंबर UP21 AH 0145 लाल कलर होंडा यूनिकॉर्न सहित चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।

प्रेसनोट थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद दिनांक 08-01-2023

थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत ढाप के मंदिर में हुई चोरी की घटना का 24 घटें में सफल अनावरण कर चोरी के समान सहित 02 शातिर चोरों को थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 08-01-2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में जनपद मुरादाबाद में वांछित व लगातार घट रही चोरी घटनाओं के अनावरण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा चौकी रामगंगा विहार क्षेत्रान्तर्गत रामगंगा नदी सीएल गुप्ता घाट पर मुखबिर की सूचना पर गुड्डू उर्फ वाजिद पुत्र हनीफ निवासी आजाद नगर स्टेशन के पास हरथला थाना सिविल लाइन मुरादाबाद व नवनीत पुत्र गोविन्द निवासी सोनकपुर गरीब आवास योजना थाना मझोला मुरादाबाद को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि वह दोनों बीती रात आशियाना में घूम रहे थे तभी उन्होंने देखा कि ढाक वाले मंदिर का गेट खुला हुआ था मौका पाकर वह दोनों अन्दर घुस गये और मंदिर के कमरे में रखे हुए तांबे के लोटे, कलश व अन्य सामान चोरी कर लिया। दोनों ने सामान को रामगंगा नदी किनारे छिपाने के फिराक में थे मुखिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों चोरी के सामान सहित पकड़ लिया। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-17/2023 धारा 457, 380 411 भादवि पंजीकृत किया गया। पूछताछ पर अभियुक्त गड्डू व नवीनीत उपरोक्त ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने ने लगभग 03 माह पूर्व आशियाना व रामगंगा विहार क्षेत्र में भी चोरी की

घटनाओं को कारित किया था। जिनके संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर पूर्व में मु0अ0सं0-756/2022 धारा 457, 380 भादवि व मु0अ0सं0- 786 / 2022 धारा-454, 380 भादवि व मु0अ0सं0- 953/2022 धारा 417, 420, भादवि पंजीकृत किए गये थे। अभियुक्तगण से चोरी का सामान बरामद होने पर उपरोक्त मुकदमों धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. गुडडू उर्फ वाजिद पुत्र हनीफ निवासी आजाद नगर स्टेशन के पास हरथला थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।
2. नवनीत पुत्र गोविन्द निवासी म0न0 157 सोनकपुर गरीब आवास योजना थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी-

- 1-अभियुक्त गुडडू उर्फ वाजिद व नवनीत पुत्र गोविन्द से 01 कलश पीतल धातु, 02 छोटे लोटे तांबा धातु, 03 जंजीर लोहा धातु, 04 गुच्छी विधुत तार, एक प्लास्टिक के डिब्बे में एक सफेद धातु की पांयल 1500 सौ रुपये।
- 2-नवनीत पुत्र गोविन्द से 1200 सौ रुपये।

आपराधिक इतिहास-

A-अभियुक्त गुडडू उर्फ वाजिद पुत्र हनीफ निवासी आजाद नगर स्टेशन के पास हरथला थाना सिविल लाइन मुरादाबाद,

1-मु0अ0स0-786/2022 धारा-454/380/411आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद 2--मु0अ0स0-953/222 धारा-417/420/411आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद 7-मु0अ0स0-423/2021 धारा 457/380/411 थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद

3- मु0अ0स0-756/2022 धारा-457/380/411आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद 4-मु0अ0स0-17/2023 धारा-457/380/411आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद

5-मु0अ0स0-253/2021 धारा-398/401 आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद

6-मु0अ0स0-254/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद

B-अभियुक्त नवनीत पुत्र गोविन्द निवासी म0न0 157 सोनकपुर गरीब आवास योजना मझोला मुरादाबाद -

1-मु0अ0स0-786/2022 धारा-454/380/411आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद 2--मु0अ0स0-953/222 धारा-417/420/411आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद

3- मु0अ0स0-756/2022 धारा-457/380/411आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद 4-मु0अ0स0-17/2023 धारा-457/380/411आई०पी०सी० थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद

5-मु0अ0स0-423/2021 धारा-457/380/411 थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद

*** गिरफ्तार करने वाली टीम -***

1-प्रभारी निरीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

2-उ०नि० देवेन्द्र सिंह थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

3-उ०नि० सौरभ त्यागी थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

4-हे०का० उदयप्रताप सिंह थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

5-का० बाबर चौधरी थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

6-का० गौरव कुमार थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

7-का० सेठपाल थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

8-का० प्रवेश तोमर थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ।

9-का० अकित कुमार थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद ।